

## ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा- छठी

Assignment जुलाई -2018-19

**प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।**

हमारा देश सैंकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। 'फूट डालो और शासन करो' की नीति से हमारा शिकार किया जा रहा था। उस समय स्वतंत्रता प्रेमियों की हर कोशिश को दबाने का प्रयास सफल हो रहा था। चारों ओर तरह-तरह की समस्याएँ जैसे- शिक्षा की समस्याएँ तथा सामाजिक समस्याएँ मुँह फाड़े खड़ी थीं। भारतीयों में उत्साह की जो चिंगारी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नज़र आई थी वह अब बुझने लगी थी। लोग घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर हो रहे थे। ऐसे में भारतीयों के अंदर उत्साह जगाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उस समय ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो प्रत्येक स्थिति में संघर्ष के आधार पर जय हासिल कर सकें।

- क) 'फूट डालो और शासन करो' की नीति किसने अपनाई और क्यों ?
- ख) अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे समक्ष किस प्रकार की समस्याएँ थी ?
- ग) गुलाम भारत देश को कैसे लोगों की आवश्यकता महसूस हो रही थी ?
- घ) 'उत्साह' तथा 'गुलामी' शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें।
- ङ) गद्यांश में से कोई दो सर्वनाम शब्द छाँटकर लिखें ।

**प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

- क) चाँद को क्या बीमारी है ?
- ख) लड़की के अनुसार चाँद बढ़ते - बढ़ते किस स्थिति को प्राप्त करता है ?
- ग) अक्षरों की खोज से क्या लाभ हुआ ?
- घ) क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते ?
- ङ) पापा ने छोटू को क्यों मारा ?
- च) छोटू सुरंग तक कैसे पहुँच गया ?

**प्रश्न-3 इन शब्दों में से तत्सम, तदभव, देशज और विदेशी शब्द छाँटकर लिखिए।**

रात, सूर्य, डिबिया, डॉक्टर, ग्राम, माता, चारपाई, स्कूल

प्रश्न-4 निम्न वाक्यों में सभी संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद भी लिखिए।

क) मैं बचपन में बहुत शरारती था।

ख) यह पर्वत बहुत ऊँचा है।

ग) किसान खेत में ट्रैक्टर चला रहा है।

प्रश्न-5 निम्न शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए।

क) कवि                      ख) सम्राट                      ग) बलवान

प्रश्न-6 निम्न शब्दों के वचन बदलकर लिखिए।

क) धातु                      ख) कन्या                      ग) राशि

प्रश्न-7 रेखांकित शब्दों के कारक के नाम लिखिए।

क) पेड़ से पत्ता गिर गया।

ख) भिखारी के लिए भोजन लाओ।

ग) छत पर चिड़िया बैठी है।

घ) राधा ने मीरा को उपहार दिया।

प्रश्न-8 कक्षा में देरी से आने पर छात्र और अध्यापक के बीच में हुए संवाद को 40-50 शब्दों में लिखिए।

प्रश्न-9 निम्न चित्र को देखकर उसका वर्णन 25-30 शब्दों में करें।



